



## DCM SHRIRAM

BSE Limited Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, <b><u>Mumbai - 400 001</u></b>	National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza", 5 <sup>th</sup> Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) <b><u>Mumbai – 400 051</u></b>
<b>SCRIP CODE : 523367</b>	<b>SCRIP CODE : DCMSHRIRAM</b>

Kind Attn : **Department of Corporate Communications/Head – Listing Department**

Sub : : **Newspaper advertisement for transfer of equity shares to IEPF**

Dear Sirs,

We enclose copies of the Newspaper Advertisements published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on June 22, 2022 with respect to the Notice to the shareholders for transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For DCM Shriram Ltd.

**(Sameet Gambhir)  
Company Secretary**



**Dated: 22.06.2022**

**Encl: As above**

### **DCM SHRIRAM LTD.**

Registered and Corporate Office: 2nd Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110037, India  
Tel: +91 11 42100200 e-mail: response@dcmsriram.com website: www.dcmsriram.com  
CIN No. L74899DL1989PLC034923



1.	BSR College, Mathura	M/S Vijay Chhonkar Through prop. Vijay Chhonkar	1. All part & parcel of residential plot no. 12 bearing water rate no. 250/32 on the part of khasra no. 2511, situated at Mauza Mathura bangar inside Rishi nagar, Maholi Road, Tehsil & Distt. Mathura in the name of Vijay chhonkar S/O Babu Lal having Area 167.22 sq. mt. Having Boundaries of house as under (as per title deed): E- House on Natholi W-Plot no.11 N-Rasta 20 ft. wide S-Plot no.13 2. Hypothecation of all current asset including book debts, stocks, & fixed asset in present/ future financed by bank			(Rupees Twenty Two lac Twenty Thousand Four Hundred Seventy Eight And Paise Ninety Three only) + interest w.e.f 01.05.2022 + Other Charges
2.	KDDC, Mathura	Bacchu Singh S/O Inder Singh And Banwari S/O Bhanwar Singh	Equitable mortgage of all part & parcel of residential property situated at khasra no. 282, Mauja Veesu, tehsil & distt. - Mathura in the name of Banwari S/o Bhanwar singh. Having super area 632.24 sqmt. Having Boundries as under (as per title deed): E: Khet Kirori etc. W: Road 18' wide N: Land Madho singh S: Land Madhe Singh	22.02.2022	17.06.2022	Rs. 10,03,144.00 (Rupees Ten Lakhs Three Thousand One Hundred Forty Four Only) + interest w.e.f. 01.06.2022 + Legal charges
3.	KDDC, Mathura	M/S Sona Metal through prop. Mukesh Kumar	1. All the part & parcel of Residential Plot no.80 (Part), Khasra no.205 situated at Mauza Girdharpur, inside Charbagh Colony, Tehsil & District- Mathura in the name of Mukesh S/O Foolchand & Balram S/O Foolchand having super area 115.49 sqmt. Bounded as under (as per title deed)— East-Plot no. 79 West-Plot no.80 (Part) North-Plot no. 73 & 74 South-Rasta 20 ft. wide 2. All the part & parcel of Residential Plot no.80 & 81 (Part), Khasra no.205 MI, situated at Mauza Girdharpur inside Charbagh Colony, Tehsil & District- Mathura in the name of Mukesh Kumar S/O Foolchand having super area 115 sqmt. Bounded as under (as per title deed)— East-Plot no. 79 West-Plot no.80 & 81 (Part) North-Plot no. 75 South-Rasta 20 ft. wide 3. All the part & parcel of Residential Two Plot no.80 & 81 (Part), Khasra no.205 MI, situated at Mauza Girdharpur inside Charbagh Colony, Tehsil & District- Mathura in the name of Balram Singh S/O Foolchand having super area 115 sqmt. Bounded as under (as per title deed)— East-Plot no. 79 West-Rasta 20 Ft. Wide North-Plot no.73, 74, 75 South-Rasta 20 ft. wide 4. Hypothecation of all current assets including stocks, book debt and fixed assets in present or future financed by bank	25.11.2020	17.06.2022	Rs. 23,47,209.84 (Rs. Twenty Three Lakhs Forty Seven Thousand Two Hundred Nine And Paise Eighty Four Only) +interest w.e.f 01.06.2022 + Other Charges.
4.	Ramghat Road Aligarh	Rameshwar Dayal Chand S/O Shekh Chand And Harish Dandar W/O Rameshwar Dayal	1) All part and parcel of Residential House of Rameshwar Dayal S/O Shekh Chand Situated in Part of Khet no.165, Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 50.166 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-Rasta 16 ft. Wide West-Arazi Seller North-Arazi Seller South-Plot Purchaser 2) All part and parcel of Residential House of Rameshwar Dayal S/O Shekh Chand Situated in Part of Khet no.165, Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 50.166 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-Rasta 16 ft. Wide West-Arazi Seller North-House Seller South-Plot Shiv Kumar	21.02.2021	20.06.2022	Rs. 19,63,358.71 (Rupees Nineteen Lakhs Sixty Three Thousand Three Hundred Fifty Eight And Paise Seventy One Only) interest w.e.f 01.06.2022 + Legal charges
5.	Ramghat Road Aligarh	M/S Sha and sons through prop. Bhoore khan S/O Chand khan	1. All the part & parcel of Residential house situated on part of Khasra no.155, inside Aabaci, Thakur wali gali, Mullapara, Bhujpura, Pargana and Tehsil Koil, Aligarh Owner- Bhure Khan S/O Late Chand khan having area 210.67 Sqmt. Having boundaries as under (as per title deed): East-Rasta 9 ft. wide. West-Khet Ganga Prasad Kavi. Now legal heirs. North-House legal heirs of Virendra South-Plot Chandra Pal. 2. Hypothecation of all current assets including book debts, stocks & Fixed assets present or future financed by bank	10.12.2021	20.06.2022	Rs. 37,71,609.50 (Rs. Thirty Seven Lakhs Seventy One Thousand Six Hundred Nine And Paise Fifty Only) +interest w.e.f 01.06.2022 +Other Charges.
6.	Ramghat Road Aligarh	Akeel Khan S/O Late Sh. Munney Khan And Smt. Saumin W/O Akeel Khan	Equitable mortgage of all part & Parcel of Residential plot/property situated at part Of Khet number 165, Village-Barola Jafrabad, Par. & Tehsil -Koil, Aligarh in the name of Akeel Khan S/O Late Munney Khan Having area 50.166 Sqmt. Having Boundaries as Under:- East- Arazi Babu West- Rasta 15 ft, Wide North-Arazi Vendor South-Plot of Rameshwar	04.12.2021	20.06.2022	Rs. 10,38,742.71 (Rupees Ten Lakhs Thirty Eight Thousand Seven Hundred Forty Two And Paise Seventy One only) + interest w.e.f 01.06.2022 + Other Charges.
7.	Ramghat Road Aligarh	M/S B & S C Hardware Company Prop. Rameshwar Dayal S/O Late Shekh Chand	1) All part and parcel of Residential House of Son Pal Singh S/O Late Shekh Chand Situated in Part Of Khet no.379/5, Mauza Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 65.88 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-House Baldev Giri West-Plot Basanti Devi & Plot Pratap Singh North-House Other South-Plot Pratap Singh & Rasta 20 ft. Wide 2) All part and parcel of Residential House of Pratap Singh S/O Late Shekh Chand Situated in Part of Khet no.379/5, Mauza Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 73.58 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-Plot Son pal Singh West-Plot Basanti Devi North-Plot Son Pal Singh South-Rasta 20ft. Wide 3) Hypothecation of all current assets including stocks, book debts & fixed assets in present or future financed by bank	21.02.2022	20.06.2022	Rs. 10,27,295.50 (Rs. Ten Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred Ninety Five And Paise Fifty Only) +interest w.e.f 01.06.2022 +Other Charges .

**DCM SHRIRAM LTD.**  
 Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi-110037  
 Tel : 011-42100200  
 CIN No.: L74899DL1989PLC034923  
 E-mail: shares@dcmshriram.com  
 Website: www.dcmshriram.com

**NOTICE**  
 (For the attention of Equity Shareholders of the Company)

This notice is being published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016.

The aforesaid Rules have prescribed the manner of dealing with the shares in respect of which dividend has remained unclaimed / un-paid for seven consecutive years or more. As per the said Rules, such shares alongwith unclaimed/ un-paid dividend shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority. The list of such shareholders is being uploaded on the Company's website at www.dcmshriram.com. In compliance with the Rules, individual letters of information are also being sent to the shareholders at their latest available address who have not en-cashed their dividend for last 7 years i.e. since the final dividend for FY 2014-15 onwards as per the records of the Company and this notice is being issued accordingly. The concerned shareholders are requested to write to the Company/ Registrar and Share Transfer Agent - M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd., F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 Tel.: 011-41406149-52, E-mail : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. For any clarification, shareholders are requested to refer to the individual notice sent to you. A Copy of the said notice is also available on the website of the Company at www.dcmshriram.com.

Please quote your folio/DP ID number in all correspondence.

For DCM Shriram Ltd.  
 Sd/-  
 Sameet Gambhir  
 Place: New Delhi Company Secretary  
 Date: 21.06.2022 & Compliance Officer

4.	Nager Ramla
5.	Mahe Soshi
6.	Legal Ram Savit Chau Force
7.	Ravi Mrs.
8.	Susi Biju Ritu Holl
9.	Ami Sup Sal

\*For de  
<https://h>  
 Date: D

**पंजाब नैशनल बैंक**  
 ... शरीसे का प्रतीक!

Whereas, been the Authorized Officer/s of the F powers conferred under Section 13 read with borrower/s to repay the amount as mentioned a hereby given to the borrower and the public in g section (4) of Section 13 of Act read with Rule property/ies and any dealing with the property/ies to provisions of sub-section (8) of section 13 of th

Sl. No.	(a) Name of Branch (b) (c) Name of Borrowers/Guar
1.	(a) Branch: Meerut College, (b) M/s Baba M (c) M/s Baba Motors Under Proprietorship of Add 1: Main Hapur Road, Village, Kharkha A-66, EME Colony, KD International Schoo Smt. Dimple Tyagi W/o Shri Neeraj Tyagi ( Main Hapur Road, Village Kharkhauda, Mee KD International School, Sardhana Road, Ishwar Chand (Guarantor), Add: 314, Badn
2.	A Residential House No. 66/510 measur Pargana Tehsil & Distt. Meerut in the nam 16 Feet 10 inches/Adjoining Plot No. 65, S
2.	(a) Branch: Meerut College, (b) M/s Baig E (c) M/s Baig Enterprises under Proprietorsh 3, Shyam Nagar, Plokhari Road, Meerut- (Prop.), Add: 3, Shyam Nagar, Plokhari Ro W/o Mr. Yasin Baig, (Guarantor/Mortgag Meerut- 250002.

Date: 21.06.2022



